



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय  
( मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित )  
MAKHANLAL CHTURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION  
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P.Legislative Assembly)

प्रेस विज्ञप्ति

## भारतीय भाषा सम्मेलन का उद्घाटन आज

एल.एन.सी.टी. कालेज में माननीय मुख्यमंत्री  
श्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे भाषा सम्मेलन का उद्घाटन

भोपाल, 13 फरवरी । माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली तथा लक्ष्मीनारायण कालेज आफ टेक्नोलाजी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय "भारतीय भाषा सम्मेलन" आज (14 फरवरी) प्रारम्भ हो रहा है। सम्मेलन का आयोजन लक्ष्मीनारायण कालेज आफ टेक्नोलाजी (एल.एन.सी.टी.) के रायसेन रोड स्थित परिसर में 14 एवं 15 फरवरी को होगा। सम्मेलन के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। वे प्रातः 11.00 बजे सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन के मुख्य वक्ता प्रख्यात शिक्षाविद, भाषा विज्ञानी तथा माइक्रोसाफ्ट, यू.एस.ए. के कम्प्यूटर इंजीनियर श्री संक्रांत सानू होंगे। सम्मेलन में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव श्री अतुल कोठारी भी अपने विचार रखेंगे।

भारतीय भाषा सम्मेलन संचार-संवाद, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएँ तथा प्रशासनिक कामकाज में हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं को अधिकाधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। सम्मेलन में भाषा एवं शिक्षा, विधि एवं न्यास क्षेत्र में भारतीय भाषा, वित्तीय क्षेत्र में भारतीय भाषा, जनसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में भारतीय भाषा जैसे विषयों पर सामूहिक एवं समानांतर सत्र होंगे। भाषा एवं शिक्षा विषय पर राष्ट्रीय शिक्षण मंडल, नागपुर के श्री मुकुल कानितकर अपने विचार रखेंगे। वित्तीय क्षेत्र में भारतीय भाषा विषय पर श्री जवाहर कर्नावत मुख्य वक्ता होंगे। जनसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में भारतीय भाषा विषय पर प्रो. बृज किशोर कुठियाला अपने विचार रखेंगे।

भाषा के क्षेत्र में व्यक्तिगत स्तर पर एवं सरकारी स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के विषय में भी सम्मेलन में विचार-विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन का समापन 15 फरवरी को दोपहर 1.00 बजे होगा। समापन सत्र के मुख्य अतिथि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के कुलाधिपति श्री कपिल कपूर होंगे। समापन सत्र में भारतीय भाषाओं में शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएँ, प्रशासनिक कामकाज आदि में बढ़ावा दिये जाने के सम्बन्ध में आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत की जाएगी।

(डा. पवित्र श्रीवास्तव)

निदेशक, जनसंपर्क